



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 31.10.2022

**1-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।**

दिनांक 31.10.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर पिन्टू उर्फ नेवला पुत्र देवकरन निवासी म0नं0-16, पॉकेट सी, संजय मार्किट, थाना गाजीपुर, दिल्ली को थाना क्षेत्र के सहारा तिराहा, सेक्टर-11 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नं0 प्लेट रजि नं0 डीएल 7 एसबीएफ 2137 लगी चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो दिल्ली के थाना एमवी थैट के ई एफ0आई0आर0 नं0 027086 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली व नोएडा, एनसीआर मे भी अ कई अभियोग पंजीकृत है।

**अभियुक्त का विवरण:**

पिन्टू उर्फ नेवला पुत्र देवकरन निवासी म0नं0-16, पॉकेट सी, संजय मार्किट, थाना गाजीपुर, दिल्ली।

**पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1-मु0अ0सं0 40/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 2-मु0अ0सं0 121/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 3-मु0अ0सं0 124/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 4-मु0अ0सं0 163/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 5-मु0अ0सं0 15/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 6-मु0अ0सं0 19/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 7-मु0अ0सं0 135/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 8-मु0अ0सं0 150/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 9-मु0अ0सं0 17/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 10-मु0अ0सं0 173/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली
- 11-मु0अ0सं0 112/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली

- 12-मु0अ0सं0 92/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली  
13-मु0अ0सं0 1043/2021 धारा 392 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।  
14-मु0अ0सं0 423/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना मधुबन बापू धाम, गाजियाबाद।  
15-मु0अ0सं0 14/2022 धारा 307 भा0दं0वि0 पुलिस मुठभेड़ थाना सेक्टर-24, नोएडा।  
16-मु0अ0सं0 15/2022 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट. थाना सेक्टर-24, नोएडा।  
17-मु0अ0सं0 027086 धारा 379 भादवि थाना एम0वी0 थैट दिल्ली।  
18-मु0अ0सं0 433/2022 धारा 411/482 भादवि थाना सेक्टर-24, नोएडा।

### **बरामदगी का विवरण:**

- 1 चोरी की मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस (थाना एम0वी0 थैट दिल्ली से सम्बन्धित)



### **2-थाना दादरी पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।**

दिनांक 31/10/2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोर 1.गोलू पुत्र मुंशी निवासी नंगला गज्जू थाना धौलाना, जनपद हापुड 2.मनीष पुत्र रामकला निवासी अच्छेजा, थाना कोतवाली हापुड, जनपद हापुड को थाना क्षेत्र के एनटीपीसी मोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद की गई है।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.गोलू पुत्र मुंशी निवासी नंगला गज्जू थाना धौलाना, जनपद हापुड।
- 2.मनीष पुत्र रामकला निवासी अच्छेजा, थाना कोतवाली हापुड, जनपद हापुड।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0 531/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण:**

चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट

- 1.मोटरसाइकिल नं0 यूपी 32 जीए 7243 स्पेलन्डर प्रो रंग ग्रे-ब्लैक।
- 2.मोटरसाइकिल नं0 यूपी 13 एडब्लू 8177 हीरो मोटरसाइकिल स्पेलन्डर प्लस

3.मोटरसाइकिल नं0 यूपी 15 सीए 0639 हीरो स्पलेन्डर प्लस

4.01 फर्जी नम्बर प्लेट नं0 यूपी 16 बीपी 9407



### **3-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा 02 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**

दिनांक 31.10.2022 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा 02 मोबाइल लुटेरे 1.विवेक कुमार पुत्र तेजवीर प्रसाद निवासी आरसी-685, वन्दना इन्कलेव, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद 2.आदिल पुत्र दिलदार निवासी ग्राम विशनपुरा, के0के0 की बिल्डिंग, थाना सेक्टर-58, नोएडा को थाना क्षेत्र के थापर गेट के पास सेक्टर-56, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट का एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी व घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल लीवो रजि0 नं0 एचआर3टी-5617 बरामद की गई है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौका पाकर सुनसान वाले स्थान पर राह चलते जनता के व्यक्तियों से उनका मोबाइल फोन छीन लिया जाता है। इनसे बरामद मोबाइल फोन इनके द्वारा दिनांक 30.10.2022 को इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सण्डे मार्केट के रजत विहार टी प्वाइंट से एक लडकी से छीना गया था जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-503/22 धारा-392 भादवि पंजीकृत है।

#### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.विवेक कुमार पुत्र तेजवीर प्रसाद निवासी आरसी-685, वन्दना इन्कलेव, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।
- 2.आदिल पुत्र दिलदार निवासी ग्राम विशनपुरा, के0के0 की बिल्डिंग, थाना सेक्टर-58, नोएडा।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0-503/22 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

#### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.एक मोबाइल फोन वीवो (सम्बन्धित मु0अ0सं0-503/22 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा)
- 2.एक मोटरसाइकिल लीवो रजि0 नं0 एचआर3टी-5617



#### **4-थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की कार व अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 31.10.2022 को थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वाहन चोर नदीम पुत्र जाकिर निवासी मकान नम्बर-91, आजाद नगर, गोला कुँआ, लिसाडी गेट, थाना कोतवाली नगर, मेरठ को थाना क्षेत्र के एडवांट चौराहे से सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन की तरफ के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की वैगनार कार नं0 यूपी 14एक्यू 0443 व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

#### **अभियुक्त का विवरण:**

नदीम पुत्र जाकिर निवासी मकान नम्बर-91, आजाद नगर, गोला कुँआ, लिसाडी गेट, थाना कोतवाली नगर, मेरठ।

#### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0 110/22 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-142, नोएडा।
- 2.मु0अ0सं0 111/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-142, नोएडा।
- 3.मु0अ0सं0 152/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, मेरठ।
- 4.मु0अ0सं0 556/19 धारा 414 भादवि, थाना ट्रांसपोर्टनगर, मेरठ।

#### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.एक वैगनार कार नं0 यूपी 14एक्यू 0443 (चोरी की)
- 2.एक अवैध चाकू



**5-थाना इकोटेक 03 पुलिस द्वारा, पिस्टल दिखाकर गाडी लूटने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 30.10.2022 को थाना इकोटेक -3 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 338/22 धारा 392/411/120बी/427 भादवि0 के अंतर्गत गाडी लूटने वाले अभियुक्त तौफिक पुत्र अब्दुल हफीज निवासी सी ब्लाक गली नं0 01 राजीव नगर मण्डोली दिल्ली को कच्ची सडक से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त तौफिक उपरोक्त ने षडयन्त्र रचकर अपने साथी सह अभियुक्त रवि आदि को पिस्टल देकर दिनांक 9/10.08.2022 को वादी को पिस्टल से धमकाकर उबेर टैक्सी (स्विफ्ट डिजायर ) को एसीई गोल चक्कर से खेडा चौगानपुर के मध्य रोड से लूट करायी थी एवं अपने अन्य साथियों के साथ उपरोक्त कार को आधा काट दिया था। इसी अवस्था में लूटी गयी कार बरामद हुयी थी। अभियुक्त तौफिक उपरोक्त मौके से भाग गया था। उक्त घटना सम्बन्ध में थाना इकोटेक-3 पर मु0अ0सं0 338/22 धारा 392/411/120बी/427 भादवि0 पंजीकृत है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

तौफिक पुत्र अब्दुल हफीज निवासी सी ब्लाक गली नं0 01 राजीव नगर मण्डोली दिल्ली

### **पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण:**

1. मु0अ0सं0 338/22 धारा 392/411/120बी/427 भादवि0 थाना इकोटेक 03 जीबीएन
2. मु0अ0सं0 446/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 03 जीबीएन

### **बरामदगी का विवरण-**

01 अवैध चाकू



**6-थाना बीटा-2 पुलिस और नोएडा के चर्चित रितिक रोशन गैंग के सदस्य लुटेरे के बीच हुई पुलिस मुठभेड में 25,000 रूपये का इनामी बदमाश आशू उर्फ बिट्टू उर्फ हरेन्द्र घायल/गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद।**

दिनांक 31/10/2022 को चेकिंग के दौरान गामा-1 गोल चक्कर पर थाना बीटा-2 पुलिस और नोएडा के चर्चित रितिक रोशन गैंग के सदस्य लुटेरे के बीच हुई पुलिस मुठभेड में 25,000 रूपये का इनामी बदमाश आशू उर्फ बिट्टू उर्फ हरेन्द्र पुत्र सुनील कुमार निवासी मैदामई, थाना सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस वर्तमान निवासी झुग्गी झोंपडी, सेक्टर-08, नोएडा को पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गयी गोली पैर में लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल व 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

अभियुक्त नोएडा के चर्चित रितिक रोशन गैंग का सदस्य है जो अपने सह-अभियुक्तों रितिक, रोशन, देवदत्त के साथ मिलकर राह चलते लोगों को अपनी कार में बिठाकर या राह चलते-चलते राहगीरों के साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 18.07.2019 को थाना बीटा-2 क्षेत्र में गामा-1 गेट नम्बर 03 के पास से एक व्यक्ति से वैगनार कार में आकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और उस व्यक्ति से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड व 22000/- रूपये लूटकर ले गये थे। अभियुक्त के गैंग के अन्य सदस्य पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं अभियुक्त मौका पाकर फरार हो गया था व तब से ही गिरफ्तारी से बचने हेतु खुद को छिपाये हुए था। अभियुक्त पिछले 03 वर्षों से थाना बीटा-2 के मु0अ0सं0-649/2019 धारा 392/411 भादवि में वांछित व 25,000/- रूपये का इनामी अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

आशू उर्फ बिट्टू उर्फ हरेन्द्र पुत्र सुनील कुमार निवासी मैदामई, थाना सिकन्दाराऊ, जिला हाथरस वर्तमान निवासी झुग्गी झोंपड़ी, सेक्टर-08, नोएडा।

### **आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0-0649/2019 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0-0588/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0-0812/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39, नोएडा।
- 4.मु0अ0सं0-0703/2019 धारा 411/413/414/482 भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।
- 5.मु0अ0सं0-0286/2019 धारा 394/411 भादवि थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण:**

- 01.एक मोटरसाइकिल चोरी की
- 02.एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर